EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED (formerly Emergent Global Edu and Services Limited)

CIN L80902DL1983PLC209722

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi – 110 001;
5: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914

Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: sotl@somanigroup.com; cs@somanigroup.com; Website:www.eesl.in

September 10, 2024

Manager – Listing, Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Limited, Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai –400 001**

Scrip Code: 506180

Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the Listing Regulations, please find enclosed herewith the copies of the Notice published in Financial Express ("English edition") and Jansatta ("Hindi edition") both dated September 7, 2024 confirming, inter-alia:-

- 1. The completion of dispatch of Notice of the 41st Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2023-24;
- 2. Relevant date for voting through electronic means and e-voting information; and
- 3. Book Closure details for 41st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on September 30, 2024.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Emergent Industrial Solutions Limited

(Sabina Nagpal) Compliance Officer

पट्टा के लिये प्राईम कार्यालय स्थान

(18 अगस्त, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन देखें) एरिया (निर्मित) कॉमर्सियल बिल्डिंग, 2रा तल, प्लॉट नं, सी 68, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कर्ला कॉम्प्लैक्स 83,524 वर्ग फीट (ईस्ट), मुम्बई-400051

पूर्व विज्ञापन के अनुसार सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे। अधो-लिखित की तिथियां संशोधित की गई है • नीचे वर्णित ईमेल आईडी पर कम्पनी प्रोफाईल तथा तीन नवीनतम वर्षों के अंकेक्षित विवरणों के

साथ ईओओ जमा करने के लिये 10 सितम्बर, 2024 को अथवा पूर्व। • संक्षिप्त सूचीबद्ध इच्छुक पार्टी के लिये 14 सितम्बर, 2024 तक डिपॉजिट के भुगतान के बाद दो दिनों (14-15 सितम्बर, 2024) को 12.00 बजे अप. 5.00 बजे अप. तक परिसर के निरीक्षण

● बाईंडिंग प्रस्ताव निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराई जाएगी जो 20 सितम्बर, 2024 से पूर्व (ईओआई जमा करने के बाद) उपलब्ध कराई जायेगी।

की व्यवस्था की जाएगी।

पूछताछ के लिये सम्पर्क व्यक्ति (ब्रॉकर्स कृपया दुर रहें/ ब्रॉकरों की पूछताछ पर विचार नहीं होगा): श्री चंदन चटर्जी, कॉल: (एम): +91-8104435576 ईमेलः chandan.chatterjee@in.gt.com

जिंदल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 201, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085 फोन नं. 011-45578272: सीआईएन: L65910DL1994PLC059720 ईमेल आईडी: info@jindalcapital.co.in; वेबसाइट: www.jindalcapital.co.in 30वीं एजीएम की सचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

दिनांक 05.09.2024 को प्रकाशित हमारे पिछले विज्ञापन के क्रम में, यह सचना दी जाती है कि एमसीए/सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से, आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 30वीं एजीएम सुचना में निर्धारित व्यवसाय को पुरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में, वर्चअल एजीएम की सचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास उनके द्वारा पंजीकृत ई-मेल आईडी पर 05.09.2024 को या उससे पहले भेज दी गई है। सदस्यों को नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को संबंधित परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना की ई-प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.jindalcapital.co.in/ और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर कंपनी शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को कट ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को आगामी एजीएम

में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए ई-वोटिंग की सविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक स्थल (ई-वोटिंग) के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनडीएसएल को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैं:

1. ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।

2. 26 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमित नहीं दी जाएगी। 3. एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से किए जा सकते हैं। 4. वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर,

2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। 5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में होगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या info@jindalcapital.co.in,

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिमोट लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन करें। बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध होगा. जहाँ कंपनी की ईवीएन प्रदर्शित की जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियक्त करने की सविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सचना को केवल सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य evoting@nsdi.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and evoting user manual for Shareholders का संदर्भ ले सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं। श्री जयविंद्र सिंह, (मेसर्स जयविंद्र सिंह एंड एसोसिएट्स), अभ्यासरत कंपनी सचिवों को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त

किया गया है मतदान और दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। . बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के भीतर परिणाम कंपनी की वेबसाइट (https://www.jindalcapital.co.in/) पर पोस्ट करके और बीएसई लिमिटेड के पास दाखिल करके घोषित

किए जाएंगे। इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। 10. कोई सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम शेयर सर्टिफिकेट (सामने और पीछे) की स्क्रैन की गई कॉपी पैन (पैन कार्ड की स्व-सलापित स्क्रैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) प्रदान करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने के लिए अनुरोध भेजें। कृपया अपने बैंक विवरण मुल कैंसिल्ड चेक के साथ हमारे आरटीए (लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को भेजें, साथ ही फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र भी भेजें, यदि पहले से पंजीकृत कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनसार अपना

. ईमेल पता पंजीकृत करें। शेयरधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ईमेल पता और बैंक खाते का विवरण डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी शेयरधारक/सदस्य, जो बोलना चाहते हैं या प्रश्न पोस्ट करना चाहते हैं, उन्हें 19 सितंबर, 2024 को या उससे पहले अपना नाम, फोलियो नंबर, डीपी आईडी/क्लाइंट 1डी, पैन, शेयरों की संख्या, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ कंपनी की ईमेल आईडी यानी into@jindalcapital.co.in पर खुद को पंजीकृत करना होगा।

जिंदल कैपिटल लिमिटेड के लिए

दिनांकः 05 सितंबर, 2024 स्थानः दिल्ली

सृष्टि गुम्बर

दिनांकः ६ सितंबर, 2024

स्थानः दिल्ली

एमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूरान्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती एमरजेंट ग्लोबल एजु एंड सर्विसेज लिमिटेड) सीआईएन : एल80902डीएल1983पीएलसी209722 पंजीकृत कार्यालय : 8—बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली—110 001 दूरभाष : (91) (11) 2378 2022, फैक्स : (91) (11) 2378 2806, ईमेल : cs@somanigroup.com, sotl@somanigroup.com; वेबसाइट : www.eesl.in

41वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा ई-वोटिंग की सूचना तदहारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 10.30 बजे, रेड फॉक्स लेमन ट्री होटल्स, मुखण्ड सं, ६, सामुदायिक केंद्र, मयूर विहार फेज ।।।, दिल्ली--110096 पर, एजीएम की सूचना दिनौंकित 12 अगस्त 2024 में निर्धारितानुसार व्यवसाय

का लेन-देन करने के लिये आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, ई-वोटिंग के अनुदेशों, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ s सितंबर, 2024 को ईमेल के माध्यम से उन सभी पात्र सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में भेजी दी गयी थी, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / डिपॉजिटरीज / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत / अपडेट हैं और जो 30 अगस्त, 2024 तक शेयर धारण कर रहे

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.eesl.in पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी तपलब्ध है। सभी प्रलेख जिन्हें सूबना में संदर्भित किया गया है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर, एजीएम की तिथि तक, सभी कार्यदिवसों पर प्रात: 10.00 से सायं 05.00 बबजे के मध्य शनिवार को छोजकर निरीक्षणार्थ खले हैं।

एतदद्वारा यह सुचना भी दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेवी सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुपालन अनुसार, रहदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहियाँ, दार्षिक आम बैठक के उद्देश्यार्थ सोमदार 23 सितंबर 2024 से लेकर के सोमवार 30 सितंबर 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 108 उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली तथा सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के साथ पठित. के अनुसार, कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार अपने सभी साधारण एवं विशिष्ट व्यवसायों का लेन-देन करने के लिये अपने सदस्यों को एजीएम के स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर संतुष्ट है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम

से वॉटिंग से ज़ड़ी निम्नलिखित जानकारी का अवलोकन करें एजेंसी जो ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा एनएसडीएल (ई-वोटिंग सुविधा वेबसाइट www.evoting.nsdl.comij उपलब्ध करायी गयी है) रही है 2 कट-ऑफ तिथि (सदस्य तब ही वॉट 21.09.2024 डालने योग्य हैं. जब वे इस तिथि के अनुसार शेयरों का धारण किये हुये हों)

ई—वोटिंग आरंग होने की तिथि एवं समय 27.09.2024 (शुक्रवार) प्रातःकाल 9.00 बजे से ई-वोटिंग समापन की तिथि एवं समय 29.09.2024 (रविवार) सार्यकाल 5.00 बजे

ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांवने के लिए मैसर्स नीरज एंड एसोसिएट्स, प्रैविटर्सिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली (सीपी नंबर 23057) के श्री नीरज शर्मा को जॉचकर्ता नियुक्त

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सुचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है. लेकिन उसे

एजीएम में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई--वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न की रिधति में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमार में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और शेयरधारकों के लिए ई-बोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 पर कोंल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

प्रस्तावों पर परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के मीतर घोषित किए जाएंगे और प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में बोट प्राप्त होने के अधीन एजीएम तिथि को प्रस्ताव पारित माने जाएंगे। घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.eesl.in पर और evoting@nsdl.com पर उपलब्ध होंगे और बीएसई को भी संसुचित किए जाएंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे

अपना ईमेल पता cs@somanigroup.com पर ईमेल द्वारा एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर पंजीकृत करा सकते हैं. जिसमें उन्हें अपने नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के अनुसमर्थन में किसी भी प्रलेख (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति का उल्लेख किया गया हो। अभौतिक अर्थात डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

दिनाँक : 06-09-2024

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते एमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड हस्ता./-(सबीना नागपाल) कंपनी सचिव तथा विधि अधिकारी

मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड सीआईएनः U14106DL1933PLC102722 पंजीकृत पताः ४, सिंधिया हाउस, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 86वीं वार्षिक-आम बैठक (एजीएम) की सूचना, ई-वोर्टिंग और बुक क्लोजर

ततद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 86वीं एजीएम सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे भाईएसटी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') 🖊 अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम की नुचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए' अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8.4.2020 और 17/2020 दिनांक 13.4. 2020 के माध्यम से, उसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5.5.2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों जिनमें सबसे नया 10/2022 दिनांक 28.12.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25. 9.2023 (सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो–विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम[ँ] बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में। वार्षिक आम बैटक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संचालित मानी जाएगी। जीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सुचना में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की गरा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई–वोटिंग'') और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग ∕ ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी क[े]पास पंजीकृत है, तो ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, तो कृपया वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल–आईडी ांजीकृत/अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने के लिए फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने और पीछें) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार की स्व–सत्यापित प्रति प्रदान करते हुए कंपनी को mbildell2024@gmail.com पर अनुरोध भेजें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया . हे अनसार अपना ईमेल पता पंजीकत / अपडेट करें।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनसार वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 86वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सभी शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। ईमेल पते और अन्य विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रियाः

अस्थायी पंजीकरण के लिए: प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकी है, वे लिंकः mbildell2024@gmail.com के माध्यम से कंपनी के साथ अपना ईमेल पता अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। ईमेल रजिस्टर करें और उसके बाद बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, शेयरधारक को एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे और एनएसडीएल र एजीएम के लिए ई-वोटिंग को सक्षम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया भी होगी। ईमेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक tombildell2024@gmail.com पर लिख सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए आप एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं।

i) स्थायी पंजीकरण के लिए: यह स्पष्ट किया जाता है कि ई–मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते पंजीकत करें:

 डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में। – कंपनी के साथ भौतिक होल्डिंग के संबंध में यानी mbildell2024@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र

शेयरधारक अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और मीटिंग के लिए ईवन का चयन करके वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकेंगे। बैठक में शामिल होने की सविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी। शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे एजीएम नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके बैठक में शामिल हों। कट–ऑफ तिथि यानी सोमवार. 23 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया

i) एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम रं

ii) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2024 र 30 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगीय (पपप) रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजें) को समाप्त होगी, (पअ) एजीएम में रिमोर्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कंट-ऑफ तारीख सोमवार, 23 सितंबर, 2024 होगी, (अ) घ्घ्कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति कंपनी के शेय प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in या mbildell2024@gmail.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है, (अप) सदस्य ध्यान व कि) 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगीय b) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, (ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा और (घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिको के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा, (vii) एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैंय (सप्तम) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग/वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होने से संबंधित प्रश्नों के मामले में, संदरस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800-1020-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनूरोध भेजें। सदस्य info@nivis.co.in पर सुश्री ऋचा रस्तोगी से भी संपर्क कर सकते हैं या कंपनी को mbildell2024@gmail.com पर लिख सकते हैं।

Aspire & Innovative

एस्पायर एड इनोवेटिव एडवरटाइनिंग लिभिटेड

(पहले एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइनिंग प्राइवेट लिभिटेड के नाम से विदित)

सीआईएन : L52601DL2017PLC321445

पंजीकृत कार्यालय : सी-4 बलदेव पार्क, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दिल्ली, भारत, 110051

निगमित कार्यालय : द्वितीय तल, प्लॉट नंबर - 52, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122003

ईमेल : cs@aspireinnovate.in, दूरभाष संख्या : 0124-2213055

वेबसाइट : www.aspireinnovate.in

07वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

07वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे (IST)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से सामान्य

परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल,

2020, परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपन्न संख्या 02/2021 दिनांक 13

जनवरी. 2021, परिपन्न संख्या 19/2021 दिनाक 8 दिसंबर, 2021, परिपन्न संख्या 21/2021

दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपन्न संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, परिपन्न संख्या

10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और परिपन्न संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर 2023

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र

संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी

2021, परिपत्र संख्या सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक

13 मई 2022, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडीई2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4

दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपन्न संख्या सेबी/एकओ/सीएफडी/सीएफडी

ईपीओढीई२ / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 जो भारतीय प्रतिभृति और

विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये हैं (जिसे आगे सामृहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा) के

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 07वीं वार्षिक आम बैठक की लुचना

और वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को ई—मेल के माध्यम से भेजी गई है, जिनके

ई-मेल पते उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत थे। ईमेल प्रसार

06 सितंबर, 2024 को पुरा हो गया है। 07वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की

वेबसाइट www.aspireinnovate.in, स्टॉक एक्सचेंज ग्रानी (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

इंडिया लिमिटेंड) की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में,

जो कि संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, भारतीय प्रतिमृति

विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी

सचीबद्धता विनियम') के विनियम 44. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों

पर सचिवीय मानक और उपर्युक्त परिपन्नों के साथ पठित है, के अनुसार, कंपनी सदस्यों को

07वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर दूरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पहले)

और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने

की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल

केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को डिपॉजिट्री

द्वारा बनाए गए सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही एजीएम के दौरान

रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा का लाग उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का वोटिंग

अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए

इविवटी शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं रह जाता

रिमोट ई-बोटिंग गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे फ) से शुरू होगी और रविवार,

29 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे फे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट डाल सकते हैं। इसके बाद, ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल

एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी

वीसी / ओएवीएम सविचा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन एजीएम के दौरान

उपलब्ध ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की

अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग,

ई-मेल पते का पंजीकरण और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुदेश 07वीं एजीएम

कोई भी व्यक्ति, जो 07वीं एजीएम की सचना के प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है

एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करके या evoting@nsdl.com पर एक

अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति

रिमोट ई-बोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेंब के साथ पंजीकृत है, तो वह 07वें एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुदेशों के अनुसार

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री संदीप कुमार, कंपनी सचिव, संदीप कुमार एंड एसोसिएट्स को

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में

उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए

ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं

या ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोवर परेल, मुंबई – 400013 पते

पर एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हान्ने को एक अनुरोध भेज सकते हैं या

एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग लिमिटेड

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

हेतु तथा उसकी ओर से

हस्ता./**-**

राकेश

मीज़ूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट डाला जा सकता है।

मतदान प्रक्रिया के संवालन के लिए जॉंबकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

e-voting@nsdl.com पर ईमेल कर सकते हैं।

और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह 07वीं

ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं ढाला है, वे एजीएम के दौरान वोट कर सकेंगे।

लिमिटेंड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनुदेश :

हैं, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडबूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

की सूचना में दिए गए हैं।

दिनांक : 6 सितंबर 2024

स्थान : नई दिल्ली

अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए, आयोजित

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये हैं और

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग लिमिटेड ("कंपनी") की

मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड के लिए

पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एल-7, मेंज तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दक्षिणी दिल्ली-110016 सीआईएनः L65910DL1988PLC033799, वेबसाइटः www.purshottaminvestofin.in, ई—मेल: purshottaminvestofin@gmail.com, दूरभाष: 011-46067802, 33वें एजीएम एवं रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

दिनांक 22 अगस्त 2024 को प्रकाशित हमारे पूर्व के विज्ञापन की निरंतरता में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन, 35वीं एजीएम सचना में निर्धारितानसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए. सोमवार 30 सितंबर 2024 को अपराहन 4.30 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाना अनुसचित है। यह आयोजन, किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, एमसीए/सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुपालन

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं आभासी एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन ईमेल आईडी में प्रेषित कर दी गई है जो उनके द्वारा 06 सितंबर 2024 को अथवा इससे पूर्व कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत करायी गयी हैं। सदस्यों को सूचना की वास्तविक प्रति भेजने की आवश्यकता को सुसंगत परिपत्रों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना की ई-प्रति, कंपनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर

कंपनी एजीएम आयोजन में वोट डालने के लिए सोमवार 23 सितंबर 2024 कट-ऑफ तिथि के अनुसार अंशों को धारण करनेवाले अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण, सभा के स्थल (ई–वोटिंग) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल को कार्यव्यस्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 तथ उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विवरण,

।. ई—वोटिंग अवधि का आरंभ बृहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 को प्रातः 09.00 बजे तथा समापन रविवार 29

सितंबर 2024 को सायं 05.00 बजे होगा। 2. दिनांक 29 सितंबर 2024 को सायं 05.00 बजे के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं

3. एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन—देन, रिमोट ई—वोटिंग अथवा एजीएम में ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।

4. कंपनी की अंश अंतरण बहियां, मंगलवार 24 सितंबर 2024 से लेकर के सोमवार 30 सितंबर 2024 (दोनों

दिवस सम्मिलित) तक वार्षिक सामान्य सभा के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी। 5. सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर 2024 के अनसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पंजी के उनके अंशों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2024 के अनुसार अंशों को धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन

आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सीज की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल जानकारी उद्देश्य हेतू मानना होगा। 3. ई—वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमाला मिल्स कंपाउंड लोवर परेल, मुंबई - 400013, ईमेल : evoting@nsdl.com, टोल फ्री नं. 022-48867000 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर अथवा दूरभाष सं. 011-26387281/82/83 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने तथा एजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना का संदर्भ लें। यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपया https://www.evoting.nsdl.co.in के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध

अंशधारकों हेत् फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ लें। श्री कुंदन अग्रवाल, एक व्यवसायरत् कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 7631), स्वामी मैसर्स कुंदन अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की जांच-पडताल करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। . परिणामों की घोषणा, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधान के साथ पठित सेबी (एलओडीआर)

विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सभा के समापन पर, घोषणा को कंपनी की वेबसाइट (www.purshottaminvestofin.in) पर डालकर तथा बीएसई लि. के साथ फाइलबद्ध करके की जाएगी। इन्हें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना-पट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। . एक सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरांत

भी एजीएम में भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे सभा में पुनः वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें पंजीकृत कर लें

कंपनी के आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, पता : टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—।।, नई दिल्ली—110 020 के पास, विधिवत भरे गये फॉर्म आईएसआर—1 तथा अन्य प्रासंगिक फार्म्स, जिन्हें कंपनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in/shareholder kyc details.html के साथ ही साथ आरटीए की वेबसाइट अर्थात् www.masserv.com से डाउनलोड टैब के अंतर्गत डाउनलोड किया जाता है, पर एक अनुरोध भेजें। आप फॉर्म आईएसआर-1 तथा अन्य प्रासंगिक फॉर्म्स

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी की सलाह पर नियत

प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश, यदि भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है, के भूगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण अद्यतन भी करें। वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होनेवाले समस्त अंशधारक / सदस्य, जो कछ कहना चाहर

के अंतर्गत तथा कंपनी को pil.cs0187@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

को कंपनी के आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को पदवि/ उंमतअण्बवउ पर कॉपी मार्क्ड

हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें 23 सितंबर 2024 को अथवा इससे पूर्व अपने नाम, डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर एवं अंशों की संख्या का उल्लेख करते हुए स्वयं को पंजीकृत करना होगा और अपने प्रश्नों को भेजना होगा और विषय लाइन कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात pil.cs0187@gmail.com पर पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड का स्पीकर पंजीकरण होनी चाहिए।

कृते पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 06-09-2024

आवश्यकता नहीं होगी।

हस्ता./-अंकित गुप्ता कंपनी सचिव स.सं.: ए५५२०१

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

(सीआईएन: L65993DL1970PLC146414) **पंजीकृत कार्यालय :** 28 नजफगढ़ रोड, मोती नगर इंडरिंट्रयल एरिया, नई दिल्ली—110 015 फोन नंबर (011) 45021854, 45021812 शास्त्रा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नंबर (01662) 222471-83

ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com 53वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

तथा पुस्तक बंद होने की सूचना त्तदद्वारा सुचित किया जाता है कि

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन-सोमवार, 30 सितंबर 2024 को 11.30 बजे साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु वीडियो कान्क्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो चिजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरिचित नियमों, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कलर नंबर 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022 司明 09 / 2023 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितंबर, 2023 क्रमानुसार तथा अन्य संबद्ध सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सेबी/एकओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा सेबी/एनओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सेबी / एथओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / यी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में की जाएगी, जिसमें सदस्यों का किसी उभय स्थान पर मौतिक रूप से उपस्थित होने की

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में, 53वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2023-24 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल है, ६ सितम्बर, २०२४ को ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल कम्पनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपैट्स के पास पंजीकृत है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है।

23 सितम्बर, 2024 की कट ऑफ तिथि को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से एजीएम की सचना में सचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

रिमोट ई-बोटिंग 27 सितम्बर, 2024 को प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी ; रिमोट ई-वोटिंग 29 सितम्बर 2024 को साय 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी :

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद लिंक इनटाइम द्वार निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को उसमें बाद में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी; रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि

23 सितम्बर, 2024 है ; कोई व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में

अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लागार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा : vii) जो सदस्य रिमोट ई-बोटिंग से बोट कर चुके हैं वे एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा पाने के हकदार

viii) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से वोट कर चुके होने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंत

बैठक में दोबारा वोट डालने का हकदार नहीं होगा : कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2024 को शेयर घारक है वह swapann@linkintime.co.in पर अन्तोध मेजकर यजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-बोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से

पंजीकृत है तो यह मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https:/instavote linkintime.co.in के हेल्प सेवशन का संदर्भ लें या श्री स्वपन कमार नसकार, एसोसिएट वाइस प्रेसिबेंट एवं हेड (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंबिया प्राइवेट लिमिटेंब, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच2 सी1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 से कॉन्टेक्ट नंबर (011)-41410592/93/94 (ई-मेल swapann@

linkintime.co.in) पर या कम्पनी से सम्पर्क करें।

सदस्यगण जो कि भौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पत्ते को कंपनी के साथ पंजीकत नहीं कराया है और जो 53वीं एजीएम की सचना एवं वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोट तथा/अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के मध्यम से 53वीं एजीएम से जुड़ने हेतु लॉगड्डन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अब कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पतों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस उददेश्य हेतु वे अपनी ई-मेल तथा केवाईसी विवरण अद्यतन करवाने के लिए प्रपन्न आईएसआर-1 उसमें विनिर्दिष्ट विवरण / वांछित दस्तावेज (कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर उपलब्ध) युक्त अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेज सकते हैं। सदस्यगण जो कि अभौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है। कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यॉ) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर लें।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट https:/instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। xiii) निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई--वोटिंग का संचालन करने के लिए कंपनी ने मेसर्स राजेश गर्ग

एँड कम्पनी, के राजेश गर्ग अभ्यासत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से

(अजय मिल्तल)

कंपनी सचिव

शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन सहित) तक एजीएम उद्देश्य से बंद रहेंगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com और स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाईटों, जहा

कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.nseindia.com और www.bselndia.com पर भी उपलब्ध है। कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

स्थान : हिसार तिथि : 06 शितम्बर, 2024

VOGUE TEXTILES LIMITED

CIN- U18101DL1992PLC049370

Regd. Office: A-206, Somdutt Chambers 1, 5 Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066 NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION Notice hereby given that: 1. The **32**nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Vogue Textiles Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing [(VC)/Other Audio-Visual

Means (OAVM)] on Monday, 30th September 2024 at 02:00 P.M. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No.17/2020 dated 13thApril 2020, 20/2020 dated 5th May 2020. 02/2021 dated 13th January 2021. 21/2021 dated 14th December 2021 and 10/2022 dated 28th December, 2022. 09/2023 dated 25th September, 2023 and all other relevant circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company, which shall be the deemed Venue of the AGM. Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year **2023-24** will be sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participant(s), Company (in case

Report through e-mails be completed on 09th September, 2024. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 are available on the Company's website at www.voquetextiles.com. Notice of the AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) website https://www.alankit.com. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Company's RTA viz. Alankit Assignments Limited (Alankit). Members can attend the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] to view the live webcast of AGM by visiting https://www.alankit.com under shareholder/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the event (EVEN

of shares held in physical form). The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual

AGM may contact Alankit at 011-23541234 or 011-42541234. . The Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on **Monday**. 23rd **September 2024** (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting

NO. 128954) for Company's AGM. Members who need assistance before or during the

system ("remote e-voting") as provided by NSDL. The remote e-voting facility will be available during the following voting period: commencement of remote e-voting from Friday, 27th September 2024 at 9:00 A.M. (IST) and to end of remote e-voting up-to Sunday, 29th September 2024 at 5:00 P.M.

Members may note that:

Date: 07th September, 2024

Place: New Delhi

a) The remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid dates and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

b) The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM; and

) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members are here by informed that any person, who becomes member of this Company after dispatch of the Notice of the AGM through the electronic means and holding

shares as on the cut-off date viz. **Monday, 23rd September 2024**, can obtain the login ID and password by sending a request at info@alankit.com. However, if a person is already registered with **Alankit** for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive) for the AGM and determining the names of members eligible for final Dividence on Equity shares, if declared at the AGM of the Company.

). Members who have not registered their E-mail addresses are requested to register their e-mail address with respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to dematerialize their shares and also upload their e-mail addresses with Company's RTA, to receive copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 together-with instructions for e-voting and participation through VC/OAVM.

10. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members available in the download section or https://www.evoting.nsdl.com, Company's Registrar toll free Number 011-23541234 or send an E-mail to rta@alankit.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM, e-voting during the AGM may be addressed to Mr. J.K. SINGLA, Manager-Corporate Registry (Unit:Vogue Textiles Limited) Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Contact Nos. 011-23541234 or 011-42541231.

> For and on behalf of. **Vogue Textiles Limited** Anil Dutt Managing Director DIN No.-01568921

एसजी फिनसर्व लिभिटेड (पूर्व में मूंगीपा सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से अभिज्ञात)

सीआईएन: L64990DL1994PLCO57941 SO FINSETVE पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 ईमेल : compliance@sgfinserve.com, वेबसाइट : www.sgfinserve.com दूरभाष: 011-44457164

डाक मतपत्र की सूचना

रतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 (''अधिनियम'') के नियम 20 एवं 22, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 (''सूचीकरण विनियमावली'') के विनियम 44, सामान्य बैठकों पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत साचिविक मानक ("एसएस-2") तथा अन्य लागूयोग्य विधि-व्यवस्थाओं एवं विनियमावली, यदि कोई, एक निर्धारित समय के लिये लागू उसके किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा पुनर–अधिनियमन(नों) सहित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं धारा 110 के प्रावधनों एवं अन्य लागूयोग्य प्रावधानों के अनुपालन में, एसजी फिनसर्व लिमिटेड (''कंपनी) जो है वह पोस्टल बैलेट सूचना दिनांकित 5 सितंबर 2024 ("पोस्टल बैलेट सूचना") में निर्धारितानुसार प्रस्तावों को पारित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से अपने सदस्यों का

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांक 05 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 के साथ पिठत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 ("एमसीए परिपत्र") के द्वारा रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया संचालित करने / सामान्य बैठकें आयोजित करने के लिये पारित दिशानिर्देशों के अनुसार, ई—वोटिंग के संबंध मे अनुदेशों के साथ पोस्टल बैलेट सूचना ईमेल के माध्यम से बृहस्पतिवार 5 सितंबर 2024 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आर एंड टीए") के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम 30 अगस्त 2024 ("कट–ऑफ तिथि") के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सची में प्रविष्ट हैं।

सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति / असहमति का संचार केवल रिमोट ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम

अतः एतदद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) ई—वोटिंग की अवधि सभी शेयरधारकों के लिए, चाहे शेयर भौतिक रूप में हों या डीमैट रूप में हों, शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को आरंभ हो रही है और शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। उसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात् 30 अगस्त 2024 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। (ग) सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम 30 अगस्त 2024 के अनुसार सदस्यों

के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट सूचना को केवल सूचना प्रयोजन के लिए समझना चाहिये है। (घ) कंपनी ने श्री जतिन गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : एफसीएस 5651: सीओपी संख्याः 5236) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से संपूर्ण डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

(ड.) जिन सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना नहीं मिली है, वे कंपनी सचिव, 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 या ईमेल : compliance@sgfinserve.com पर कंपनी को आवेदन कर सकते हैं।

(ए) सदस्य निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर उपरोक्त बैठक की सूचना यहां देख सकते हैं www.sgfinserve.com और (सीडीएसएल / एनएसडीएल की वेबसाइट www.cdslindia.com/ www.nsdl.co.in)। इसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी देखा

बी) पोस्टल बैलेट / ई—वोटिंग के परिणाम सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को सायं 5:00 बजे या इससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अध्यक्ष या उनकी ओर से उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.sgfinserve.com पर रखे जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

यरि आप ने कंपनी / डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो आप ई–वोटिंग के लिये लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु निम्न अनुदेशों का पालन कर सकते हैं

कपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे एवं पीछे) की स्कैंड प्रित, पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैंड प्रित, आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैंड प्रित अथवा पते के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य प्रलेख जैसे अनिवार्य विवरण कंपनी को ईमेल compliance@sgfinserve.com पर अथवा आरटीए को virens@skylinerta.com पर

अभौतिक कृपया डिमैट खाता विवरण (सीडीएसएल– 16 अंकीय लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल- 16 अंकीय डीपीआईडी सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, आधार कार्ड की स्व-प्रमाणितत स्कैंड प्रति अथवा पते के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य प्रलेख कंपनी को : compliance@sgfinserve.com पर अथवा आरटीए को : virens@skylinerta.com पर उपलब्ध करायें।

ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य को इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-वोटिंग सक्षम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की एक सॉफ्ट कॉपी मिल

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न पूछना है या आपको कोई समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022—23058738 और 022—23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन प्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई को संबोधित की जा सकती हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एसजी फिनसर्व लिमिटेड (पूर्व में मूंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

दिनांक : 6 सितंबर, 2024 ऋतु नागपाल स्थान : गाजियाबाद कपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD 9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001 Tel No. (0522) 2612949, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994 Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

दिनांक: 06.09.2024

TENDER NOTICE

the Notice of the AGM dated 12th August, 2024

days, except Saturday, up to the date of the AGM.

the purpose of Annual General Meeting.

Agency providing E-Voting Facility

Cut-off date (Member eligible to cast

vote only if they are holding shares.

Date and time of commencement of

1. Date and time of ending of E-voting

requisite number of votes in favour of the resolutions.

evoting@nsdl.com and shall also be communicated to BSE.

can update their email address with their Depository Participant.

on this date.

Date: 06.09.2024

Place: New Delhi

Online e-tenders are invited from original manufacturers (as per details given in tender documents) for lime(Mehmudabad, Nanpara, Sultanpur & Sathiaon,) to various Cooperative Sugar Factories of U.P., The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from e- tender portal http://etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding.

EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

(Formerly Emergent Global Edu and Services Limited)

CIN L80902DL1983PLC209722

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001;

Phones: (91) (11) 2378 2022; Fax: (91) (11) 2378 2806,

Email: cs@somanigroup.com; sotl@somanigroup.com; Website: www.eesl.in

NOTICE OF 4157 ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 41" Annual General Meeting of the Company will be held on

Monday, the 30th September, 2024 at 10.30 a.m. at Red Fox by Lemon Tree Hotels. Plot No. 6.

Community Center, Mayur Vihar Phase III, Delhi - 110096 to transact the business as set out in

The Notice of AGM, together with Annual Report, instructions for E-voting, along with attendance

slip and Proxy form was sent through email on September 5, 2024 to all eligible members

individually whose e-mail address are registered/updated with the Company/Depository

Participants/ Depositories/Registrar & Transfer Agent (RTA) and are holding shares as on August

The notice of AGM and Annual Report is also available on the Company website, www.eesl.ir

on the website of Bombay Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the

website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. All documents referred to in the notice are open for

inspection at the registered office of the Company between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and

Regulation 42 of SEBI ("Listing Obligations and Disclosure Requirements") Regulations 2015,

the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Monday, the 23" September, 2024 to Monday, the 30" September, 2024 (both days inclusive) for

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the ruled framed thereunder and

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is

pleased to provide E-voting facility to all its members for transacting the Ordinary and Special

business as set out in the Notice of the AGM using the electronic voting system from a place other

Mr.Neeraj Sharma, of M/S Neeraj & Associates, Practising Company Secretaries, New Delhi (CP

No.23057) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after

obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com.

lispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21" September 2024, may

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members

attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise

their right at the meeting through ballot paper. A member may participate in the AGM even after

exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the

In case of any queries relating to evoting, the members may refer the Frequently Asked

Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the

download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 or send a

The results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the

AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of the

The results declared will be available on the website of the Company, www.eesl.in and on

Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with

the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request

letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the

PAN Card; and self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving

Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered

with the Company, by email to cs@somanigroup.com. Members holding shares in demat form

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Regd. off: L-7, Menz. Floor, Green Park Extension, Delhi-110016

CIN: L65910DL1988PLC033799, Website: www.purshottaminvestofin.in

Email: purshottaminvestofin@gmail.com, Ph. No. 011-46067802

NOTICE OF THE 35™ AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

n continuation to our earlier advertisement published on dated August 22, 2024, NOTICE is

hereby given that the 35" Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on

Monday, September 30, 2024 at 04.30 PM (IST) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/

OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in 35" AGM Notice

in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made

thereunder, read with MCA/SEBI Circulars without physical presence of members at common venue.

In compliance with the circulars, the Notice of Virtual AGM and the Annual Report for the financial

year 2023-24 have been sent to all the members electronically to the e-mail ID registered by them

with the Company/ Depository Participants on or before September 06, 2024. The requirement of

sending physical copy of the notice to the Members have been dispensed with vide relevant

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 of the

Company will be available on the website of the Company at www.purshottaminvestofin.in and on

The company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Monday,

September 23, 2024 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members

may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of

meeting (e-voting). The company has engaged NDSL to provide remote e-voting facility. The

. E-voting period commences on Thursday, September 26, 2024 at 9:00 A.M and ends on

The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on September

The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-voting

The share transfer book of the Company will remain closed from Tuesday, September 24.

2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the Annual

The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share

capital of the company as on the cut-off date i.e. September 23, 2024. Any person who

becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as

on cut-off date i.e., September 23, 2024, may obtain the login ld and Password by sending a

request to evoting@nsdl.com or info@masserv.com. The facility for appointment of Proxies

by Members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM. A person

who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information

VC/OAVM, Members may contact NSDL, Trade World-A Wing, Kamala Mills Compound

Lower Parel, Mumbai-400013. Email: evoting@nsdl.com, Toll-free no: 022-48867000.

Further, Members may also contact with Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS

For details relating to remote e-voting, joining the AGM through VC and e-Voting at the AGM,

please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting,

please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for

Mr. Kundan Agrawal, a Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7631)

Proprietor, M/s. Kundan Agrawal & Associates has been appointed as the Scrutinizer to

The results shall be declared as per regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015 read with

the applicable provision of the Companies Act, 2013 from the conclusion of the meeting by

posting the same on the website of the Company (www.purshottaminvestofin.in), and by filing

with the BSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the

. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through

Members who have not registered their email-id are requested to register the same by

Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd

Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form ISR-

1 and other relevant forms, which may be downloaded from the Company's

website at www.purshottaminvestofin.in/shareholder_kyc_details.html as well as

RTA website i.e. www.masserv.com under the download tab. You can also send

the Form ISR-1 and other relevant forms to the RTA of the Company, MAS

Services Limited at info@masserv.com under copy marked to the company at

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if

All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or post

questions shall register themselves and send their queries, if any, on or before September 23,

2024 with their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number & number of shares

and subject line should be Speaker Registration of Purshottam Investofin Limited at the

Shareholders available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com

scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

following the procedure given below:

pil.cs0187@gmail.com

as per the process advised by DP.

declare by company in future.

e-mail id of the Company i.e. pil.cs0187@gmail.com

Physical

Holding

Demat

Holding

Place: New Delhi

Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

6. In case of any query or grievance pertaining to e-voting and attending the AGM through

details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

the website of the BSE Limited at www.bseindia.com

Sunday, September 29, 2024 at 5:00 P.M.

www.evoting.nsdl.com)

27.09.2024 (Friday) from 9.00 a.m.

29.09.2024 (Sunday) at 5.00 p.m.

21.09.2024

NSDL (e-voting facility provided on the website

By the Order of the Board of Directors

Company Secretary and Law Officer

(Sabina Nagpal)

For Emergent Industrial Solutions Limited

han the venue of AGM. The following information relates to voting through electronic means:

MANAGING DIRECTOR

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following Authorised person is no longer affiliated as AP of SMC Global Securities Ltd., BSE & NSE REG. No INZ000199438 trading member of Bombay Stock Exchange Of India Ltd. & National Stock Exchange of India Ltd. having the registered office at 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi- 110 005. Any person henceforth dealing with below mentioned AP should do so at their own risk. SMC Global Securities Ltd shall not be liable for any dealings with them.

AP Trade Name : HEMEN RAVA BSE AP Reg. No. NSE AP Reg. No

: AP01047001150158 DATE : 16-Feb-2023 DATE: 13*Feb-2023 : Ap0820560161 Reg. Office Address: Bandarmari-Missamari Road, Mear Bandarmari Post Office, Tezpur, Bihaguri, Sonitpur, Assam, India-784153

JINDAL CAPITAL LIMITED

Regd Office: 201, Aggarwal Plaza, Sec-9, Rohini, Delhi-110085 Ph No. 011-45578272; CIN: L65910DL1994PLC059720 E Mail ID: info@jindalcapital.co.in; Website: www.jindalcapital.co.in NOTICE OF THE 30TH AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

n continuation to our earlier advertisement published on dated 05.09.2024, NOTICE I hereby given that the 30TH Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 27th Day of September, 2024 at 12:30 PM (IST) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)) OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in 30th AGM Notice in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the rules made thereunder, read with MCA/SEBI Circulars without physical presence

n compliance with the circulars, the Notice of virtual AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent to all the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants on or before 05.09.2024. The requirement of sending physical copy of the notice to the Members have been dispensed with vide relevant Circulars. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 of the Company will be available on the website of the Company at https://www.jindalcapital.co.in/ and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com

he company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Friday, September 20, 2024 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged NDSL to provide remote e-voting facility. The details sursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under

E-voting period commences on Tuesday, 24th September, 2024 at 9:00 A.M (IST) and ends on Thursday, 26th September, 2024 at 5:00P.M. (IST)

The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 26th September, 2024. The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-voting

The share transfer book of the Company will remain closed from Saturday, September 21 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting

The facility of joining the AGM through VC/OAVM shall 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting and will be available for members on first

The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e., 20th September, 2024, may obtain the login ld and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or enotices@linkintime.co.in, info@jindalcapital.co.in, helpdesk evoting@cdslindia.com: Members are requested to login at https://eservices.nsdl.com/ by using the remote login credentials. The link for electronic participation through VC/OAVM during the meeting will be available in shareholder/members login portal where the EVEN of the company will be displayed. The facility for appointment of Proxies by Members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM. A person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

In case of any query or grievance pertaining to e-voting and attending the AGM through VC/ OAVM, Members may contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdi.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in

been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting

Mr. Jaivindra Singh, (M/s. Jaivindra Singh & Associates), Practicing Company Secretaries has

by posting the same on the website of the Company (https://www.jindalcapital.co.in/), and by filing with the BSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Members who have not registered their email-id are requested to register the same by following the procedure given below:

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company Link Intime India Pvt Ltd. providing Folio Number, Name, of the Shareholder, Scanned copy of Share Certificate (Front and Back), PAN (Self Attested scanned copy of PAN Card), AADHAR. (Self Attested scanned copy of Aadhar card) for registering their e-mail address. Please send your Bank details with original Cancelled Cheque to our RTA (Link intime India Pvt. Ltd along with letter mentioning folio no, if not registered already). Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as

All shareholders/members attending AGM through VC/OAVM, who wish to speak or post questions shall register themselves on or before 19th September, 2024 with their name, Folio No, DP ID/ Client 1D, PAN, no. of Shares, e-mail Id and Mobile No. at the email id of the company i.e.

demat account as per the process followed and advised by the DP

per the process advised by DP. The shareholder may please contact the Depository

Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the

For JINDAL CAPITAL LIMITED

Date: September 05, 2024

Srishti Gumber Place: Delhi Company Secretary

VOGUE TEXTILES LIMITED

CIN- U18101DL1992PLC049370 Regd. Office: A-206, Somdutt Chambers 1, 5 Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION** Notice hereby given that: 1. The 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Vogue Textiles Limited

Means (OAVM)] on Monday, 30th September 2024 at 02:00 P.M. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No.17/2020 dated 13thApril 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021, 21/2021 dated 14th December 2021 and 10/2022 dated 28th December, 2022. 09/2023 dated 25th September, 2023 and all other relevant circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company, which shall be the deemed Venue of the AGM. . Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the members whose

("the Company") will be held through Video Conferencing [(VC)/Other Audio-Visual

E-mail addresses are registered with the Depository Participant(s), Company (in case of shares held in physical form). The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual Report through e-mails be completed on 09th September, 2024. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 are available on the Company's website at www.voguetextiles.com. Notice of the AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) website https://www.alankit.com Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform

provided by Company's RTA viz. Alankit Assignments Limited (Alankit). Members can attend the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] to view the live webcast of AGM by visiting https://www.alankit.com under shareholder/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the event (EVEN NO. 128954) for Company's AGM. Members who need assistance before or during the AGM may contact Alankit at 011-23541234 or 011-42541234. . The Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote

by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on Monday, 23rd September 2024 (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting") as provided by NSDL. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

commencement of remote e-voting from Friday, 27th September 2024 at 9:00 A.M. (IST) and to end of remote e-voting up-to Sunday, 29th September 2024 at 5:00 P.M. (IST)

6. Members may note that:

a) The remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid dates and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

b) The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM; and

c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

. Members are here by informed that any person, who becomes member of this Company after dispatch of the Notice of the AGM through the electronic means and holding shares as on the cut-off date viz. **Monday, 23rd September 2024**, can obtain the login ID and password by sending a request at info@alankit.com. However, if a person is already registered with **Alankit** for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

B. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive) for the AGM and determining the names of members eligible for final Dividend on Equity shares, if declared at the AGM of the Company.

. Members who have not registered their E-mail addresses are requested to register their e-mail address with respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to dematerialize their shares and also upload their e-mail addresses with Company's RTA, to receive copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 together-with instructions for e-voting and participation through VC/OAVM. 0. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Members and e-voting User Manual for Members available in the download section or https://www.evoting.nsdl.com, Company's Registrar toll free Number 011-23541234 or send an E-mail to rta@alankit.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM, e-voting during the AGM may be addressed to Mr. J.K. SINGLA, Manager-Corporate Registry (Unit: Vogue Textiles Limited) Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Contact Nos. 011-23541234 or 011-42541231.

> For and on behalf of, **Vogue Textiles Limited**

> > Anil Dutt **Managing Director** DIN No.-01568921

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED Registered Office: 25, C- Block Community Centre, Janakpuri, New Delhi 110058

Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/, CIN: L65910DL1984PLC018749 Tel No. 011-45675500 E-Mail Id: listing@spacapital.com

NOTICE OF THE 40th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND REMOTE E- VOTING Notice is hereby given that

The 40° Annual General Meeting of the members of SPA Capital Services Limited will be held on Monday, the 30" day of September, 2024, at the Registered Office at 11:00 AM, to transact the

The Company has on 6" September 2024 completed the dispatch of Annual report containing the Notice of AGM to the members whose names have appeared in the register of members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in demat mode, through permitted mode. The AGM notice and Annual Report sent electronically have been displayed on the Company's Website http://www.spacapital.com/CapitalServices/ and shall also be available for inspection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holidays, between 11 A.M. to 1 P.M. up to the date of AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management &

Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on Monday, September 30, 2024. 4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the notice, for which the Company has engaged the services of NSDL as evoting agency. Further, the facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. The remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5.00 p.m. (IST). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Tuesday, September 24, 2024 may cast their vote electronically. The Members may note that remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Sunday, September 29, 2024. In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help and 'Frequently Asked

Questions (FAQs) for Members' and 'e-voting user manual' available at https://www.evoting.nsdi.com/ under help section or write an email to evoting@nsdl.com or contact company at email. listing@spacapital.com for any other clarifications.

The results of voting shall be announced on or after the AGM of the Company and will be made available on the website of the Company/RTA/Exchange. For SPA Capital Services Limited

Sandeep Parwal Chairman Cum Managing Director Place: New Delhi Date: 07-09-2024

CAPITAL INDIA HOME LOANS LIMITED CAPITAL INDIA CIN NO. U65990DL2017PLC322041

Reg Add: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Loans Limited [CIN NO.U65990DL2017PLC322041] under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("Act") and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated 11.06.2024 in respect of loan accounts bearing number HLNHFLNCR0013317. calling upon the borrowers Seema Varshney, And Vishnu Varshney to repay total amount mentioned in the demand notice being Rs. 22,87,861/- (Indian Rupees Twenty-Two Lakhs Eighty-Seven Thousand Eight Hundred And Sixty-One Only) as on 09.06.2024 along with further interest and charges in terms of loan agreement accrued / to be accrued thereon w.e.f., 10.06.2024 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Capital India Home

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 04.09.2024.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Capital India Home Loans Limited for an amount of Rs.22,87,861/- (Indian Rupees Twenty-Two Lakhs Eighty-Seven Thousand Eight Hundred And Sixty-One Only) as on 09.06.2024 along with further interest and charges as aforesaid.

The attention of the borrower is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Residential Plot (Old No.147), New No.178, Area Admeasuring 44 Sq.Yds,+ 51 Sq. Yda, Total Area Admeasuring 95 Sq. Yds , Situated At Richhgardi , Near Hapur Road.3Rd Floor (Without Roof Rights) Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, U.P -201001, together with all rights (Including But Not Limited To Rights To Use And Occupy Common Areas, Facilities, Amenities, Development Rights Etc. (as Applicable), And All Furniture, Fixtures, Fittings, And Things Attached Thereto, which is Bounded as under: East: Remaining Portion of Plot, West: Plot of Sudha Sharma & Anju Sharma, North: Plot of Dharam Wati, South: Rasta 8 Ft Wide

Date - 04-09-2024 **Authorized Officer** Place - Ghaziabad Capital India Home Loans Limited

> Aspire & Innovative mproving lives

ASPIRE & INNOVATIVE ADVERTISING LIMITED (Formerly Known as Aspire & Innovative Advertising Private Limited) CIN: L52601DL2017PLC321445

Regd. Office: C-4 Baldev Park, East Delhi, Shahdara, Delhi, India, 110051 Corp. Office: 2nd Floor, Plot No. - 52, Sector-44, Gurugram, Haryana-122003 Email: cs@aspireinnovate.in, Phone Number: 0124-2213055 Website: www.aspireinnovate.in

NOTICE OF 07™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 07" Annual General Meeting ("AGM") of the Aspire & Innovative Advertising Limited ("Company") will be held on Monday, September 30, 2024, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020. Circular no. SEBI/ HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard (hereinafter collectively referred as "Circulars") to transact the business as set out in the Notice of convening AGM.

Notice of the 07" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 ("Annual Report") have been sent through e-mail to those Members whose e-mail address were registered with their respective Depository Participants ("DPs"), The email dissemination has been completed on September 06, 2024. The Notice of 07" AGM and Annual Report are also available on Company's website at www.aspireinnovate.in , Stock Exchange i.e. (National Stock Exchange of India Limited) website at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM: In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the

Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and abovementioned Circulars the Company is pleased to provide to the Members, facility to exercise their right to vote on the business as set forth in the Notice of the 07" AGM through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM). The Company has appointed NSDL as the agency to provide the e-voting facility. Only those Members whose names are recorded in the register of Members/ Beneficial

Owners maintained by Depositories as on cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM. The voting right of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paidup equity share capital of the Company as on Cut-off date. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only. Remote e-voting shall commence on Thursday, September 26, 2024 (9:00 A.M. IST) and

end on Sunday, September 29, 2024 (5:00 P.M. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting. The facility for voting through e-voting system will also be made available during the AGM.

The Members attending the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their

vote by remote e-voting will be able to vote during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote

again through e-voting facility available during the AGM. Once the Member cast vote on a resolution, they shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM, e-voting during the AGM, registration of e-mail address and obtaining login details are provided in Notice

Any person, who acquire share(s) and become Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 07" AGM and holds shares as on the Cut-off date may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the 07' AGM or sending a request at evoting@nsdl.com . However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited for remote e-voting. then existing User ID and Password can be used to cast their vote as per instructions

The Board of the Directors of the Company has appointed Mr. Sandeep Kumar, Company Secretary, Sandeep Kumar & Associates as the Scrutinizer for conducting the voting process through remote e-Voting/ e-voting during the AGM in a fair and transparent In case of any queries, the Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at Trade World, A wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 or email at e-voting@nsdl.com. For and on behalf of

> Aspire & Innovative Advertising Limited Sd/-Rakesh Company Secretary and Compliance Officer



Branch Address : G-10, Ground Floor, Sector-22, Noida, Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh-201301 Branch Mail ID: br1013@sib.co.in

Gold Auction for Mortgages at Bank

Whereas, the authorized officer of The South Indian Bank Ltd., issued Sale notice(s) calling upon the borrower to clear the dues in gold loan availed by him. The borrower had failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned will conduct online auction of the gold ornaments strictly on "As is What is Basis" & "Whatever there is Basis" & "Without recourse Basis". The auction will be conducted online through https://egold.auctiontiger.net on 20.09.2024 from 12:00 pm to 03:00pm for the borrower MR.SANTOSH KUMAR account number 10136530000000060

Please contact Auction Tiger on 6352632523 for more information. Sd/- Manager

The South Indian Bank Ltd.

CRANEX

CRANEX LIMITED CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwania Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com. Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010 NOTICE OF THE 49TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cranex Limited ('Company') will be held on Monday, 30th September, 2024 at 3.00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ead with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, and subsequent circulars issued n this regard, the latest one being General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Circular No. SEBI/HO/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th

/C/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 that the business as set out in the Notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting and that the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility.

October, 2023 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the

business that will be set forth in the Notice of the meeting. Members attending the AGM through

n compliance with the relevant Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2023-24, have been sent on 6th September, 2024 to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.cranexltd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, and on the website of NSDL AT www.evoting.nsdl.com.

of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting Instructions for e-voting and e-voting during AGM The manner of remote e-voting and voting at the AGM by Members holding shares in a dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Registe

on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, respectively, and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. evoting risdl.com he remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of e-voting From 9.00 a.m. (IST) on Friday, 27th September, 2024

Up-to 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 29thSeptember, 2024

n the Notice of AGM and is also available on the website of the Company www.cranexitd.com and

the eligibility of the members to vote by electronic means or at the Annual General Meeting. n case, a person has become a member of the Company after dispatch of notice of Annual Seneral meeting but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Monday, 23rd September 2024, he/she may write to NSDL on the e-mail id evoting@nsdl.co.in requesting for the User id and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User Id and Password for casting his/her vote through remote e-voting.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for -voting shall be shared on the member's registered email id.

n case, members have any query regarding e-voting. Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as nentioned in the AGM Notice or call 022-4886 7000 and 022-2499 7000. Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for

overseeing/ conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent For Cranex Limited

Heena Sharma

Place: New Delhi Date: 07.09.2024

Company Secretary Membership No.- A65512

SBEC SUGAR LIMITED CIN: L15421UP1991PLC019160

Ph.: 011-42504878. Email id: investors@sbecsugar.com website: www.sbecsugar.com NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Company will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 11:00 A.M. (IST), through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling the

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24, have been sent on 5th September, 2024 by electronic mode to the members of the company whose email addresses are registered with the Company/ Company's RTA/ Depository Participant(s) as on 30th August, 2024. The Notice and Annual Report and other relevant details are also available on the website of the Company at www.sbecsugar.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

website of the Company at www.sbecsugar.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central The Company is providing its members facility to exercise their vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their

votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting

have been given in the Notice. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

addresses is provided in the Notice which is also available on the website of the Company at www.sbecsugar.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com

Cut-off date for remote e-voting Saturday, 21st September, 2024

Ends: Friday, 27^{th} September, 2024 at 5:00 P.M.

A person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, 21st

Manner of registering/ updating e-mail addresses: Members are requested to register/update their email addresses in respect of shares held

in dematerialised form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by submitting Form ISR-1, Form ISR-2 and Form No. SH-13 (available on

Delhi – 110062 or E-mail at **beetalrta@gmail.com**. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and Password in the manner as provided in the Notice, which is available on the website of the Company, Stock Exchange and CDSL's website. Such members may cast their votes using the e-voting

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, 22nd September, 2024 to Saturday, 28th September, 2024 (both days

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an Email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no.

For SBEC Sugar Limited

Date: 06.09.2024 **Anil Kumar Goel Chief Financial Officer** Place: New Delhi

New Delhi

Date: 06.09.2024

Company Secretary M. No.: A55201

Ankit Gupta

For Purshottam Investofin Ltd.

Date: 07th September, 2024 Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

Date: September 6, 2024

of the 07" AGM.

provided in Notice of the 07" AGM.

Place: New Delhi

Regd Off: Vill: Loyan Malakpur, Teh: Baraut, Baghpat, Uttar Pradesh-250611

AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

The Company also filed the corrigendum to the notice of the 30th Annual General Meeting on 06-09-2024 to the Bombay Stock Exchange and the revised notice is uploaded on the Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

The manner of remote e-voting and voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email

The remote e-voting details are as follows:

The remote e-voting period Commences: Wednesday, 25th September, 2024 at 9:00 A.M.

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or participate at the AGM and voting during the AGM.

the website of the Company at www.sbecsugar.com or at RTA's at www.beetalfinancial.com) duly filled and signed along with the requisite supporting documents to M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Complex, Near Dada Harsukhdas Mandir, New

instructions, in the manner specified in the Notice.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

1800 21 09911. By the order of the Board of Directors